

Multibagger Stock: मुनाफे की खूब मिठास घोल रहा है यह शुगर स्टॉक, सालभर में 440 फीसदी चढ़ा



पिछले काफी दिनों से शुगर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है.

वर्ष 2022 में श्री रेणुका शुगर लिमिटेड (Shree Renuka Sugars Limited) के शेयर

अधिक पढ़ें ...


NEWS18HINDI

LAST UPDATED :
APRIL 21, 2022, 08:25
IST

EDITED BY :
विनय झा

विज्ञापन

फोटो



रकुलप्रीत सिंह ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, शेयर करते ही इंटरनेट पर छाई PHOTOS

संबंधित खबरें



इन 3 शेयरों पर नहीं बाजार के उतार-चढ़ाव का असर, करा रहे खूब कमाई



होम मनी IPL 2022 मनोरंजन प्रदेश नॉलेज क्रिकेट नौकरी टेक देश फूड



रॉकेट की तरह उड़ता ही जा रहा है अडानी विल्मर का शेयर, अब बनाया नया रिकॉर्ड



शानदार नतीजों के बाद HCL Tech के बारे में क्या है

नई दिल्ली. पिछले काफी दिनों से शुगर स्टॉक्स (Sugar Stocks) में काफी तेजी देखने को मिल रही है. भारत की सबसे बड़ी शुगर कंपनियों में शामिल श्री रेणुका शुगर लिमिटेड (Shree Renuka Sugars Limited) का शेयर तो पिछले एक साल से अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न (multibagger returns) दे रहा है. इस शेयर ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों का 440 फीसदी मुनाफा दिया है. अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले इस शेयर में पांच लाख रुपये लगाए हैं तो उसका निवेश आज 27 लाख रुपये की शक्ल ले चुका है.

बुधवार को भी इस शेयर में तेजी देखने को मिली. इंट्राडे में यह शेयर 53.60 रुपये (Shree Renuka Sugars Share Price) तक पहुंच गया पिछले एक

इसका माव 37.25 रुपये था जा आज 52.25 रुपये हो गया. पिछले छह महीना में श्री रेणुका शुगर लिमिटेड में 78 फीसदी की तेजी आई है. वर्ष 2022 में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को करीब 72 फीसदी रिटर्न दिया है. शेयर अभी अपने 20, 50, 100 और 200 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है.

विज्ञापन



108MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M53 5G लुक के चलते ये एक्ट्रेस भी भारत में लॉन्च, और भी हैं ढेर हो चुकी हैं टोल, लिस्ट में सारी खूबी करीना कपूर का भी है नाम

और देखें

राशिभविष्य



राज्य/शहर चुनें

लाइव टीवी

मेष

वृषभ

मिथुन

प्रश्न पूछ सकते हैं या अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ।

Click To UnMute

o|x AUTOS

Call 982 111 0000 or visit olxautos.in



NO HIDDEN CHARGES



1 CRORE+ CARS SOLD IN 10 YEARS



FREE CAR INSPECTION

Visit olxautos.in

ब्रोकरेज की राय? जानिए



आईपीओ लाने की तैयारी में साह पॉलीमर्स, SEBI के पास जमा किए दस्तावेज

ये भी पढ़ें: कमजोर नतीजों के बाद भी ACC में तेजी, एक्सपर्ट्स भी दे रहे खरीदने की सलाह

इसलिए आ रही है तेजी

बिजनेस टूडे पर प्रकाशित एक समाचार में बताया गया है कि केयरएज रिसर्च (CareEdge Research) की एक रिपोर्ट के अनुसार शुगर इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम मिल का पत्थर साबित होगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में चीनी की अधिकता की स्थिति को कम करना है. सरप्लस चीनी और गन्ने से इथेनॉल बनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीनी मिलों को कई तरह से सहायता दे रही है. कुछ दिन पहले ही सरकार ने अलग-अलग स्कीम के तहत इथेनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए लोन के डिस्बर्समेंट की टाइमलाइन बढ़ा दी है. अब यह 30 सितंबर 2022 तक हो गई है. भारत वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करना है.

ये भी पढ़ें : शेयर मार्केट के Pump एंड Dump घोटाले से बचना है तो जेरोधा के बताए इन टिप्स को अपनाएं

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान (Brokerage house Sharekhan) का कहना है कि सरकार का 2025 तक 20 फीसदी ब्लेंडिंग के लक्ष्य ने मध्यम से लॉग टर्म में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में सुधार की संभावना को बढ़ा दिया है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चीनी के दाम बढ़ने का फायदा भी भारतीय चीनी कंपनियों को हो रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-2022 में भारत के चीनी निर्यात (India's sugar export) में 291 फीसदी का उछाल आया है और इस अवधि में भारत ने \$4.6 बिलियन चीनी का निर्यात किया है.

PROMOTED CONTENT

By



Fairplay- The biggest betting exchange in India at your fingertips

Fairplay



Navigate the ups & downs of markets with Balanced Advantage funds. Just...

Kotak MF | Balanced Advantage Funds

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज़ अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |

Tags: [Business news in hindi](#), [Multibagger stock](#), [Stock market](#)

टॉप स्टोरीज



‘भविष्य की धातुएं’, ये कल युद्ध का कारण भी बन सकती हैं, जानें इनके बारे में



आईटी कंपनी के सीईओ ने मिट्टी की दीवारों पर छप्पर डालकर बना दिया नया ऑफिस

ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ा सकती है क्रिप्टोकॉर्सेसी! बढ़ते बिजली खर्च से चिंता

HPSC Judiciary Mains Admit Card: इस डेट को जारी होगा HPSC ज्युडिशरी एडमिट कार्ड

अधिक पढ़ें

You Might Also Like

SIMPLIFY DESIGN.

BONDS NEARLY ANYTHING. IN AN INSTANT.

LOCTITE

Bonds Nearly Anything in an Instant
www.tryloctite.in

Click To UnMute

OLX AUTOS

Call 982 111 0000 or visit [olxautos.in](#)

NO HIDDEN CHARGES


1 CRORE+ CARS SOLD IN 10 YEARS

FREE CAR INSPECTION

Promoted Content

Get a Zero Balance Savings Account and a whole lot of joy
Open your IndusInd Bank Savings Account online today

Open Savings Account Online in just few quick steps
[indusind.com](#)



Louis Philippe presents world of luxury. Explore premium casual
Louis Philippe

Save big on doctor fees
Health Plans starting @ ₹299/month

Medicine bills + Doctor fee + Lab tests - All covered at 299/month -
Kenko Health



Instant seal with excellent chemical and thermal resistance.
[www.tryloctite.in](#)



Senior Apartments Coming to Mumbai (Check Prices)
Apartments for sale | Search



People Are Donating To Save Naveen. Your Support Is Crucial
Ketto



Launching Codename Enchanted by Runwal, 1 & 2 Bed at Thane
Runwal Enchanted Kolshet-



EPOS Audio